

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 125]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 21 मार्च 2016—चैत्र 1, शक 1938

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 21 मार्च 2016

क्र. बी-11-03-2015-चौदह-2.—मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के पत्र क्रमांक-बी-11-03-2015-चौदह-2, दिनांक 17 नवम्बर 2015 द्वारा राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अन्तर्गत मौसम रबी 2015-16 हेतु पटवारी हल्का स्तर की अधिसूचना क्रमांक 456, दिनांक 17 नवम्बर 2015 जारी की गई थी, जारी अधिसूचना में रतलाम एवं छिन्दवाड़ा जिलों की संलग्न संशोधित सूची अनुसार उनके समक्ष दर्शाई गई फसलों के लिये मूल अधिसूचना क्रमांक 456, दिनांक 17 नवम्बर 2015 के अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा परिभाषित क्षेत्र घोषित किया जाता है. मौसम रबी वर्ष 2015-16 जिला रतलाम एवं छिन्दवाड़ा के पटवारी हल्का स्तर की संशोधित अधिसूचना जारी की जाती है:—

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

बी. एस. धुर्वे, उपसचिव.

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना रबी 2015-16 हेतु अधिसूचित की जाने वाली फसलवार पटवारी हल्कों की पूरक संशोधित सूची

मौसम	रबी	वर्ष	2015-16	100 हैक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफल वाली चयनित फसलों की हल्कावार सूची				
जिला	तहसील	रा.नि.मं. का नाम	पटवारी हल्का नं.	पटवारी मुख्यालय का नाम	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	राई-सरसों
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
रतलाम	रतलाम	नामली	0002	खोखरा	गेहूं सिंचित	-	-	-
		बिलपाँक	0076	जमूनियां	गेहूं सिंचित	-	-	-
		ताल	0004	बरखेड़ा खुर्द	गेहूं सिंचित	-	चना	-
			0019	लसुडीया खेडी	गेहूं सिंचित	-	-	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			0022	मुडला कलां	गेहूं सिंचित	-	-	-
			0023	मरमीया खेडी	गेहूं सिंचित	-	-	-
			0024	कीटखेडी	गेहूं सिंचित	-	-	-
			0026	नीपानीया लीला	गेहूं सिंचित	-	-	-
						-	-	-
छिन्दवाड़ा	छिन्दवाड़ा	छिन्दवाड़ा-1	0022	अजनिया	गेहूं सिंचित	-	-	-
			0050	रामगडी	गेहूं सिंचित	-	-	-